



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 15.11.2020

1-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध तरीके से पटाखो की बिक्री करते हुये दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से पटाखो से भरा एक बोरा व एक कार्टून कीमत लगभग 01 लाख रूपये बरामद।

दिनांक 15.11.2020 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले 02 अभियुक्त 1. हरी कुमार पुत्र राजेन्द्र शाह निवासी किराये का सतीश चौहान का मकान गली नम्बर 3 मामूरा सै0 66 थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर 2. विकास कुमार पुत्र मरसूदन भगत निवासी किराये का सतीश चौहान का मकान गली नं 3 मामूरा सै0 66 थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के मामूरा चौक से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से पटाखो से भरा एक बोरा व एक कार्टून (कीमत लगभग 01 लाख रूपये) बरामद किये गये है।

अभियुक्तो का विवरण-

1. हरी कुमार पुत्र राजेन्द्र शाह निवासी तिहारी थाना बिहारी गंज जिला मधेपुरा बिहार वर्तमान पता किराये का सतीश चौहान का मकान गली नं 3 मामूरा सै0 66 थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर
2. विकास कुमार पुत्र मरसूदन भगत निवासी श्रीपुर थाना कोतवाली मधेपुरा जिला मधेपुरा, बिहार वर्तमान पता पता किराये का सतीश चौहान का मकान गली नं 3 मामूरा सै0 66 थाना फेस 3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 868/20 धारा 5/9 बी (1)ख विस्फोटक अधिनियम थाना फेस-3 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

पटाखो से भरा एक बोरा व एक कार्टून कीमत लगभग 01 लाख रूपये

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा गरीब जरूरतमन्द बच्चों को मिठाई व उपहार भेंट कर दीपावली मनाई गई। पुलिस के इस मानवीय कार्य से बच्चों के चेहरे खिलखला उठे।



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 15.11.2020 को यातायात पुलिस द्वारा जीआईपी मॉल के प्रांगण में वर्ल्ड रिमेम्बरेन्स-डे में मनाया गया। इस कार्यक्रम को विंग कमांडर रिटायर्ड श्री बीएस बक्शी, पुलिस उपायुक्त श्री गणेश प्रसाद साहा व श्री अनुराग कुलश्रेष्ठ द्वारा सम्बोधित किया गया। कार्यक्रम में सडक दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों के शोक में 02 मिनट का मौन धारण किया गया, तथा मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजली दी गयी। कार्यक्रम में काफी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे, कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु अपील की गयी तथा नियमों का पालन न करने पर होने वाली सडक दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम को जीआईपी मॉल के प्रबन्धक श्री शमीम अहमद, सुरक्षा प्रबन्धक श्री वीरेन्द्र त्यागी, ट्रैक्स संस्था के अध्यक्ष श्री अनुराग कुलश्रेष्ठ व सह अध्यक्ष रजनी गांधी के सहयोग से सम्पन्न कराया गया। इस अवसर पर टीआई श्री रविन्द्र वशिष्ठ एवं अन्य यातायात पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।

